



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91]
No. 91]नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1983/फाल्गुन 25, 1904
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 1983/PHALGUNA 25, 1904इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सकेSeparate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1983

सं० का० नि० 271(अ) :—लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 को और आगे संशोधित करने के लिए एन० द्वारा निम्नलिखित स्कीम यत्नाती है, अर्थात् :—

- 1 (1) उक्त स्कीम को लोक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1983 कहा जाएगा।
- (2) इस स्कीम का पैरा 2 इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा और शेष पैरे 1 अर्थात्, 1983 से प्रवृत्त होंगे।
- 2 लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) में, पैरा 3 में, 'रुपए 40,000' अक्षरों और अंकों के स्थान पर, 'रुपए 40,000' अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
- 3 उक्त स्कीम के पैरा 4 में, उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) अभिदान अपना अभिदान प्रारम्भ करने में अथवा यथासंभव उसमें अधिक मिलने-जुलने प्रारम्भ में चालान के साथ लेखा कार्यालय में विज्ञापित (जमा) कराएगा। इस चालान के प्रतिपण (वाउचर फायल) लेखा कार्यालय द्वारा, सम्बन्धित रूप से ग्राहकित रसीद सहित, निक्षेपकर्ता (अमाकर्ता) को लौटा दिए जाएंगे।

और या दृष्टि अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा निक्षेप करने की दशा में लेखा कार्यालय निक्षेप की राशि की वसूली होने तक निक्षेपकर्ता को एक वापसी शीट दे सकता है।”

- 4 उक्त स्कीम के पैरा 7 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) अभिदान, जो किसी वर्ष में पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अनुसार अभिदान नहीं कर सकेगा, चक्र के प्रत्येक वर्ष के लिए 100 रुपए के तकाया अभिदान के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए 10 रुपए की सीमा अदा करके, चक्र की माफ़ी के लिए लेखा कार्यालय में अनुरोध कर सकता है।”

- 5 उक्त स्कीम के पैरा 9 में, उप-पैरा (2) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा अर्थात् :—

“(2)(क) उप-पैरा (3) के उपबन्धों के अन्वये, अभिदान उस वर्ष के अन्त में, जिसमें प्रारम्भिक अभिदान किया गया था, 15 वर्ष की समाप्ति पर, और ऐसी दशा में जब कि वह चालान खाता बन्द नहीं करना चाहता, प्रारम्भ में ‘अथवा यथासंभव अधिक से अधिक’ उसमें मिलने-जुलने प्रारम्भ में, लेखा कार्यालय को यह सूचित कर सकता है कि—

(ब) वह पैरा 3 में विहित सीमाओं के अनुसार 5 वर्षों की अवधि के लिए अभिदान चालू रखेगा, अथवा

(ग) वह और आगे कोई अभिदान नहीं करेगा।

अब कोई अभिदान उपर्युक्त खण्ड अधिनियम में अभिदान करना चाहेगा, तो उसे, इन अवधि में किसी भी समय लेखा कार्यालय को अपनी ‘सम-वृत्त’ गति प्रारम्भ में अथवा यथासंभव अधिक से अधिक उसमें मिलने-जुलने प्रारम्भ में आवेदन-पत्र देकर यह अधिनियम के प्रारम्भ में अपने खाने में जमा राशि के 50 प्रतिशत के बराबर राशि की एक आंशिक निवासी करने का हक होगा।

टिप्पणी : अभिदाता उस वर्ष के अंत से, जिस वर्ष प्रारंभिक अभिदान किया गया था, 20 वर्षों की समाप्ति पर (अथवा, यथास्थिति, 25 वर्षों की समाप्ति पर) 5 वर्षों की अतिरिक्त खंड अवधि के लिए भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।

लेकिन, यदि अभिदाता और आगे अभिदान नहीं करना चाहेंगे तो उसके खाते में जमा राशि पर, पैरा 8 के उपबंधों के अनुसार तब तक ब्याज अर्जित होना रहेगा जब तक कि वह अपने खाते में जमा समूची राशि की निकासी के लिए लेखा कार्यालय को आवेदन-पत्र नहीं दे देगा।"

प्रतिपत्र (1)

अभिदाता की प्रति

लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968

(लेखा कार्यालय का नाम)

दिनांक

खाता संख्या लेजर फोलियो

अभिदाता का नाम

जमा कराई गई राशि (नकद/चैक)

अभिदान : रूपए

ऋण की वापसी अदायगी

ऋण पर ब्याज :

फीम : _____

जोड़ _____

. रूपए

(शब्दों में)

निक्षेप (जमा) कार्यालय के प्रयोग के लिए

राशि अंकों में

रोकड़िये की स्कौल संख्या

निक्षेप कार्यालय की दिनांकित

स्टाम्प

रोकड़िया

प्रधान रोकड़िया/लेखा अधिकारी

प्रतिपत्र (2)

अभिकर्ता की प्रति

अभिकर्ता का नाम

कोड संख्या

लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968

(लेखा कार्यालय का नाम)

खाता संख्या लेजर फोलियो

अभिदाता का नाम

जमा कराई गई राशि (नकद/चैक)

अभिदान : रूपए

ऋण की वापसी अदायगी

ऋण पर ब्याज

फीम :

जोड़ _____

. रूपए

(शब्दों में)

निक्षेप (जमा) कार्यालय के प्रयोग के लिए

राशि अंकों में

रोकड़िये की स्कौल संख्या

निक्षेप कार्यालय की दिनांकित

स्टाम्प

रोकड़िया

प्रधान रोकड़िया/लेखा अधिकारी

टिप्पणी : अभिदाताओं द्वारा अभिकर्ता की सेवाएं न लिए जाने पर इस प्रतिपत्र को काट दिया जाए।

6. उक्त स्कीम के विद्यमान प्ररूप 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप ख

केन्द्रीय

[पैरा 4 का उप-पैरा (3) देखिए]

अभिषर्ता का नाम कागजी टोकन संख्या

कोड संख्या लोक भविष्य निधि स्कीम, 1968

सरकारी खाते में धनराशि जमा कराने के लिए चालान

.
(लेखा कार्यालय का नाम)

खाता संख्या दिनांक

अभिषर्ता का नाम लेजर फोलियो

पता

नकद	राशि रुपए	राशि (अंकों में)	सरकारी खाते का शीर्ष
100 ×			
50 ×		अभिदान	
20 ×		ऋण की वापसी	'806—लोक भविष्य निधि'
10 ×		अदायगी	
5 ×			
† बैंक/ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर		ऋण पर ब्याज फीस	“049—ब्याज प्राप्ति—अन्य प्राप्ति”
ओड़		ओड़	

† बैंक/डाकघर जहाँ से धनराशि निकाली जानी है।

संख्या

. रुपए (शब्दों में)

द्वारा
(निक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर)

रोकड़िये की स्कूल संख्या अन्तरण स्कूल संख्या

स्कूल लिपिक

रोकड़िया

प्रधान रोकड़िया एम टी संख्या

लेखा अधिकारी

टिप्पणी : (1) बैंक/ड्राफ्ट लेखा कार्यालय के पक्ष में होता चाहिए। लोक भविष्य निधि खाता संख्या कोष्ठकों में दी जानी चाहिए जिससे कि शीघ्र और उचित समायोजन किया जा सके।

(2) बैंक/ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर द्वारा धनराशियाँ जमा किए जाने की वशा में धनराशि की बमूसी हो जाने पर, लेखा अधिकारी द्वारा चालान के प्रणिपूर्ण निक्षेपकर्ता को वापस दे दिए जाएंगे।”

7 प्ररूप ज के रूप में निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

“प्ररूप ज

[पैरा 9 का उप-पैरा (2 क) देखिए]

श्री: भविष्य निधि स्कीम, 1968 के अन्तर्गत खाते की 15 वर्ष से परे चालू रखने के लिए आवेदन पत्र

गया में,

अभिकर्ता/प्रबन्धक/आयपाल

.....

.....

मेरे लोक भविष्य निधि खाता संख्या को उसके खोले जाने के प्रारम्भिक वर्ष के बाद दिनांक को 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे :

1. मैं अपने उपर्युक्त खाते में, स्कीम के पैरा 3 में विहित सीमाओं के अनुसार, 5 वर्ष की अतिरिक्त खण्ड अवधि के लिए अभिदान चालू रखना चाहता हूँ ।

2. मैं अपने उपर्युक्त खाते में और आगे कोई अभिदान करना नहीं चाहता ।

दिनांक .

अभिदाता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

1 जो लागू न होता हो उसे काट दीजिए ।

लेखा कार्यालय में प्रयोग के लिए

प्रारम्भिक अभिदान के वर्ष के बाद खाते की खोले दिनांक को 15 वर्ष पूरे हो गए हैं । अभिदाता की प्रार्थना को नोट कर लिया गया है ।

दिनांक:

लेखा अधिकारी”

[संख्या एक 3(23)-पी डी//S.]

मंगल दास पाल, निवेशक
(बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1983

G.S.R. 271 (E):— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 (23 of 1968), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund Scheme, 1968, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 1983.

(2) Paragraph 2 of this Scheme shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and the remaining paragraphs shall come into force from 1st April, 1983.

2. In the Public Provident Fund Scheme, 1968 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 3, for the letters and figures 'Rs. 30,000, letters and figures 'Rs. 40,000' shall be substituted.

3. In paragraphs 4 of the said Scheme, for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(3) The subscriber shall deposit his subscription with the accounts office with a challan in Form B, or as near thereto as possible. The counterfoils of the challan shall be returned to the depositor by the accounts office, duly evidenced by receipt.

In the case of deposits made by cheque or draft or postal order, the accounts office may issue a paper token to the depositor pending realisation of the proceeds."

4. In paragraph 7 of the said Scheme, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) A subscriber who fails to subscribe in any year according to the limits specified in paragraph 3, may approach the accounts office for condonation of the default, on payment, for each year of default, a fee of Rs. 10 along with arrear subscription of Rs. 100 for each such year."

5. In paragraph 9 of the said Scheme, the following sub-paragraph shall be inserted after sub-paragraph (2), namely:—

"(2A) Subject to the provisions of sub-paragraph (3), a subscriber may, on expiry of 15 years from the end of the year in which the initial subscription was made and in case he does not intend to close the account immediately, inform the accounts office in Form H, or as near thereto as possible, that—

(a) he would continue to subscribe for a further block period of 5 years according to the limits prescribed in paragraph 3, or

(b) he would not make any further subscription.

In the event of a subscriber, desiring to subscribe during the aforesaid block period, he would be eligible to make one partial withdrawal, at any time during that period, equal to 50 per cent of the balance at his credit at the commencement of the block period, by applying to the accounts office in Form C, or as near thereto as possible, together with his pass book.

Note: A subscriber may also avail of this facility for a further block of 5 years on expiry of 20 years (or on expiry of 25 years, as the case may be) from the end of the year in which the initial subscription was made.

Where, however, the subscriber does not wish to make any further subscription, the balance at his credit shall continue to earn interest, in accordance with the provisions of paragraph 8, until he applies to the accounts office for the withdrawal of the entire balance standing to his credit."

Counterfoil (1)

Subscriber's copy

Public Provident Fund Scheme, 1968

(Name of Accounts Office)

Dated.....

Account No.....

Ledger Folio.....

Name of Subscriber.....

Amount deposited (Cash/Cheque)

Rs.

Subscription :

Loan Repayment:

Interest on Loan :

Fee _____

Total _____

Rupees.....
(In words)**Counterfoil (2)**

Agent's copy

Name of Agent

Code No.

Public Provident Fund Scheme, 1968

(Name of Accounts Office)

Dated

Account No.

Ledger Folio.....

Name of Subscriber.....

Amount deposited (Cash/Cheque)

Rs.

Subscription:

Loan Repayment:

Interest on Loan:

Fee _____

Total _____

Rupees.....
(In words)**For Deposit Office**

Amount in figures;

Cashier's scroll No.

Dated stamp of deposit office

Cashier

Head Cashier/Accounts Officer

For Deposit Office

Amount in figures;

Cashier's Scroll No.

Dated Stamp of deposit office

Cashier

Head Cashier/Accounts Officer

N.B. This counterfoil may be scored out by subscribers not utilising the services of an agent.

6. The existing Form B of the said Scheme shall be substituted by the following, namely:—

CENTRAL

“Form B

(See sub-paragraph (3) of paragraph 4)

Name of Agent

Paper Token No.

Code No

PUBLIC PROVIDENT FUND SCHEME, 1968

Challan for deposit of money into Government Account

(Name of Accounts Office)

Account No.

Date

Name of subscriber

Ledger Folio

Address

Cash	Amount Rs.		Amount (in figures)	Head of Govt. A/c
100 ×		Subscription		' 806—Public Provident Fund'
50 ×		Loan Repayment		
20 ×				
10 ×				
5 ×				
*Cheque/Draft/Postal Order		Interest on Loan Fee		'049—Interest Receipt —Other receipts'
Total		Total		

*Bank/P.O. on which drawn

Number

Rupees (in words)

By _____
(Depositor's signature)

Cashier's Scroll No. Transfer Scroll No.

Scroll Clerk

Cashier

Head Cashier M.T. No.

Accounts Officer

Note (1) The cheque/draft should be in favour of the Accounts Office. The PPF Account No. should be indicated in brackets thereafter to ensure quick and proper adjustment.

Note (2) In the case of deposits made by cheque/draft/postal order, the counterfoils of the challan will be returned by the Accounts Office to the depositor on realisation of the proceeds.”

7. The following Form shall be added as Form H, namely:—

"FORM H

[See Sub-paragraph (2A) of paragraph 9]

To Application for continuance of account under Public Provident Fund Scheme, 1968 beyond 15 years.
The Agent/Manager/Post Master

My public Provident Fund account No. will complete 15 years, after the initial year of its commencement, on,

*I wish to continue to subscribe to my above referred account for a further block period of 5 years according to the limits prescribed in paragraph 3 of the Scheme.

*I do not wish to make any further subscription to my above account.

Date:

Signature or thumb impression
subscriber/guardian

*Delete whichever is not applicable.

For use in accounts office

The account completed 15 years after the year of initial subscription on Subscriber's request has been noted.

Accounts Officer" *

Date:

[No. F. 3(23)—PD/82]
M.D. PAL, Director (Budget)